

काशी वशि्वनाथ की तरज़ पर बनेगा ठाकुर बांकेबहिरी मंदिर का कॉरडोर

चर्चा में क्यों?

23 अगस्त, 2022 को मथुरा ज़िलाधिकारी नवनीत सहि चहल ने बताया कि मथुरा ज़िला प्रशासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला दर्शन के दौरान बांकेबहिरी मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते दो श्रद्धालुओं की मौत के बाद काशी वशि्वनाथ की तरज़ पर बांकेबहिरी मंदिर का कॉरडोर बनाने जाने का प्रस्ताव बनाया है।

प्रमुख बदि

- वृंदावन में बहिरीजी कॉरडोर से ठाकुर बांकेबहिरी मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा। कॉरडोर बनने से संकरी गलियों से श्रद्धालुओं को मुत्तमिलिगी, साथ ही जनसुवधिाँ भी मुहैया हो सकेंगी। नवनरिमति काशी वशि्वनाथ कॉरडोर को वृंदावन के लिये आधार बनाया जा रहा है।
- गौरतलब है कि काशी वशि्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल करीब पाँच लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। काशी वशि्वनाथ मंदिर कॉरडोर के दायरे में 23 इमारत और 27 मंदिर भी आते हैं। चार बडे+ गेट हैं, कॉरडोर में 22 शिलालेखों पर काशी की महमिा का वर्णन कयिा गया है।
- इस कॉरडोर में मंदिर चौक, मुमुकषु भवन, कई यात्री सुवधिा केंद्र, यूटलिटी भवन सहति आदि सुवधिाँ दी गई हैं। 1780 में महारानी अहलियाबाई होलकर के बाद काशी मंदिर को भव्यता कॉरडोर के माध्यम से दी गई है।
- इसके अलावा दक्षिण भारत स्थति रामेश्वरम् मंदिर का कॉरडोर सबसे बड़ा है, जो करीब 400 फीट लंबा है। 12 ज्योतरिलिगीं में शामिल रामेश्वरम् के लिये बने कॉरडोर की खूबसूरती वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस कॉरडोर की चौड़ाई 197 मीटर तक है।